

शिशुओं के वॉकर और व्यायाम के लिए जंपर

शिशुओं के वॉकर और व्यायाम जंपर खतरनाक होते हैं और इनका प्रयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है।

इन उपकरणों के प्रयोग से गंभीर शारीरिक क्षति या विकासात्मक विलंब हो सकता है।



बेहतर, अधिक सुरक्षित विकल्पों में शामिल हैं:

- ★ फर्श पर समय बिताना
- ★ शिशुओं के झूले और रॉकर कुर्सी
- ★ गतिविधियों के लिए मेज
- ★ धकेलने वाली ट्रॉली।

और अधिक जानकारी के लिए, कृपया

वेबसाइट kidsafesa.com.au पर जाएँ।

(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au

    YouTube


Child Accident Prevention Foundation of Australia


Government
of South Australia
SA Health